

रजिस्ट्री सं० डी० (बी०)

Division. 10D

Acc. No. 2118

Date of

Cont. No.

Printed


transfer

Checked



सत्यमेव जयते

REGISTERED



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 1]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक अपूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 1978

का० आ० 1 (अ).—त्रिपुरा जिले में स्थित बनोवाई, चाय एस्टेट नामक चाय एकक के, जो मैसर्स त्रिपुरास्वारी टी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, 83, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 के स्वामित्व में है के बारे में, केन्द्रीय सरकार की राय है कि :-

(क) वर्ष 1973 से 1977 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज जिला औसत उपज के 25 प्रतिशत से भी अधिक कम हुई है;

(ख) चाय एकक के स्वामियों ने कर्मचारों तथा अन्य कर्मचारियों की मजदूरी, भविष्य निधि देयों और भूमि के किराए का संदाय, जिनका संदाय करने के लिए वे तत्समय प्रवृत्त कतिपय विधियों के अधीन बाध्य हैं, करने में बारम्बार व्यतिक्रम किया है; और

(ग) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग और लोक हित के लिए बहुत अहितकर है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के कार्यों का पूर्ण और समग्र अन्वेषण करने के

प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

- (1) श्री एस० एम० नन्दकुलियार, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड, कलकत्ता।
- (2) श्री पी० के० दाम गुप्त, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड, कलकत्ता।
- (3) श्री वी० एन० वरुणा, विकास आयुक्त और पदेन सचिव, उद्योग विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।
- (4) श्री ए० के० राय चौधरी, उप सलाहकार (वित्त), लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली।

2. उक्त निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[सं० बी० 12012 (11)/76-प्लान्ट(क)]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1978

S.O. 1(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Knowai Tea Estate situated in the district of Tripura, owned by Messrs Tripureswari Tea and Trading Company Limited, 83, Park Street, Calcutta-700016, that,—

- (a) the average yield of the tea unit during the years 1973 to 1977 has been lower than the district average yield by more than twenty-five per cent ;
- (b) the persons owning the tea unit have habitually made default in the payment of wages, provident fund dues of workers and other employees, rent of the land as they are under an obligation to pay under certain laws for the time being in force ; and
- (c) the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoint for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of :

- (1) Shri S. S. Nandkolyar, Director of Tea Development, Tea Board, Calcutta.
- (2) Shri P. K. Desgupta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta
- (3) Shri V. N. Barua, Development Commissioner and Ex-officio Secretary, Department of Industries, Government of Tripura, Agartala.
- (4) Shri A. K. Roychoudhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan New Delhi.

2. The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. B. 12012(11)/76-Plant (A)]

T. BALAKRISHNAN, Joint Secy